

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 सितम्बर 2010—आश्विन 5, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. बी-11-4-2010-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2010-11 के लिये संलग्न सूची के अनुसार तहसील स्तर पर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2010-11 हेतु अधिसूचित किये जाने के लिये फसलवार जिलों एवं तहसीलों की सूची

फसल - अलसी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)
1	डिण्डोरी	1. डिण्डोरी 2. शहपुरा
2	बालाघाट	3. बालाघाट 4. लांजी 5. खैरलांजी

(1)	(2)	(3)
		6. वारासिवनी
		7. कटंगी
		8. किरनापुर
		9. बैहर
3	सिवनी	10. लालबर्वा
		11. सिवनी
		12. केवलारी
		13. लखनादौन
		14. बरघाट
		15. घंसोर
4	कटनी	16. विजयराघवगढ़
		17. ढीमरखेड़ा
		18. बहोरीबंद
5	मण्डला	19. मण्डला
		20. नैनपुर
		21. बिछिया
		22. निवास
6	उमरिया	23. बांधगढ़
7	रीवा	24. रीवा (हुजूर)
		25. मऊगंज
		26. हनुमना
		27. त्योथर
		28. सिरमौर
8	सतना	29. मझगावां
		30. मैहर
		31. रामनगर
9	शहडोल	32. सुहागपुर
		33. ब्योहारी
		34. जैतपुर
10	अनुपपूर	35. पुष्पराजगढ़
		36. जैतहरी
11	सीधी	37. गोपदबनास
		38. सिंहावल
		39. मझौली
		40. रामपुरनैकिन
12	सिंगरोली	41. देवसर
		42. चितरंगी
		43. सिंगरोली
13	दमोह	44. पथरीया
		45. हटा
		46. जबेरा
		47. बटियागढ़
		48. पटेरा
14	छतरपुर	49. लौड़ी

(1)	(2)	(3)
		50. गौरीहार
		51. बिजावर
		52. नौगांव
15	रायसेन	53. बेगमगंज
16	बैतूल	54. मुलताई
17	सागर	55. केसली
		56. खुरई
		57. बण्डा
18	पन्ना	58. पन्ना
		59. गुनौर
		60. पवई
		61. शाहनगर
<b>फसल - प्याज</b>		
1	खण्डवा	1. खण्डवा
		2. पन्धाना
2	सागर	3. सागर
3	राजगढ़	4. नरसिंहगढ़
4	भोपाल	5. हूजूर
5	शाजापुर	6. शुजालपुर
		7. गुलाना
		8. मो. बडोदिया
		9. शाजापुर
6	देवास	10. देवास
<b>फसल - आलू</b>		
1	छिन्दवाड़ा	1. छिन्दवाड़ा
		2. परासिया
2	शाजापुर	3. शाजापुर
		4. गुलाना
		5. मो. बडोदिया
3	देवास	6. देवास
		7. बागली
4	इन्दौर	8. इन्दौर
		9. महु
		10. सावेर
		11. देपालपुर
5	सिंगरोली	12. सिंगरोली
6	सागर	13. सागर
7	उज्जैन	14. उज्जैन
		15. तराना
8	धार	16. धार